

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 17, शक 1936

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-15-15-2006-दस-2.—मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-6 (1) (ग) के तहत राज्य शासन तीन वर्ष हेतु एतद्द्वारा कैप्टन श्री मन्दार महाजन को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2013 से गठित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का शेष अवधि हेतु सदस्य मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप सिंह राजपूत, अपर सचिव.